

Ref: SEC/SE/2023-24 Date: April 18, 2023

To, Corporate Relation Department BSE Ltd Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 500096

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Publication of newspaper notice for loss of share certificates

Dear Sirs,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 18.04.2023 in which notice for intimation of loss of share certificates of the shareholders of the Company have been published.

Submitted for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Dabur India Limited

(A K Jain)

EVP (Finance) and Company Secretary

Encl: as above

'India needs

to add 80

wide-body

aircraft by

**ROHIT VAID** 

New Delhi, April 17

decade end'

INDIAN AIRCRAFT FLEET

needs to add 80 wide-body

planes to take its total fleet

size to 200 by 2025-30,

according to GE Aviation's

country head for South Asia

of the decade the require-

ment of wide-body aircraft in

another 70 have been ordered

aircraft needs to be added.

the next big stage for growth

of airlines in India and all of

India would be 200.

by airlines.

Rai told Fe that by the end

Of this, at present, 50 are already operational and

That means another 80

"Wide-body operations is

and Indonesia, Vikram Rai.

## MAKING IT EASY FOR NON-TECH SAVVY USERS

# E-commerce companies add voice feature to apps

SAMEER RANJAN BAKSHI Bengaluru, April 17

AS E-COMMERCE PLAYERS tap semi-urban and rural markets and non-tech savvy consumers, they are embedding voice-based search facility in their apps. Major players like Amazon India, Flipkart, Swiggy, Zomato, Nykaa have embedded this feature in their apps. Even the Open Network for Digital Commerce (ONDC) has held preliminary talks with a couple of startups for providing voiceassisted search technology for its reference apps.

Shireesh Joshi, chief business officer, ONDC, said: "Voice assistants are going to be a huge opportunity in the Indian ecommerce sector, especially among people who are not in a position to text. Voice or audio is very convenient because one just needs to speak". Flipkart bought the speech

recognising startup Liv.ai in 2018, and Reliance bought the majority stake in another conversational AI-based startup, Haptik in 2019. Google invested in the domestic voice-based startup Slang Labs in 2021.

Bharath Ram, senior vicepresident, user acquisition and retention, Flipkart, said: "There has been a 5x growth in voice**VOICE TECH MAKES NOISE** 



- Flipkart bought the speech recognising startup Liv.ai in 2018
- Reliance bought majority stake in conversational AIbased startup Haptik in 2019
- Google invested in the domestic voice-based startup Slang Labs in 2021

search users and a 3x growth in vernacular-search users over the past year. These innovations are helping make shopping easier for a new wave of users. Half of all vernacular search shoppers are new online shoppers". According to him, the use of voice technology has also been found to be beneficial for customers who prefer hands-free interactions or have mobility issues, as it allows them to easily navigate and use e-commerce platforms.

Flipkart customers can use voice search in four languages English, Hindi, Tamil and Telugu.

Kumar Rangarajan, cofounder of Slang Labs, said: "For consumer-centric industries, e-

commerce contribution to total sales has been growing significantly in the last 3-4 years. The reasons are the growing number of smartphones, internet penetration, UPI payments and now 5G rollouts. Similarly, we believe voice technology will add momentum to these growing numbers."

"On a monthly basis, around 200,000 users are using CONVA voice assistants on our clients' apps. Over a million customers have used it in the last 2.5 years. The voice market in India is estimated to be about \$300-400 million, and globally the market size is \$10 billion," Kumar added.

Kishore Thota, director, customer experience and market-

ing, Amazon India, said: "Amazon introduced voice shopping in English in 2020 and expanded it further with the addition of Hindi in 2021. Since launch, the number of customers using the voice shopping experience has doubled every year. We are seeing strong adoption for the Hindi voice shopping experience from new and existing customers". Subodh Kumar, co-founder

of Liv.ai, said: "When we started working on voice-based technology in 2014, we saw a huge potential for voice in India, as many people were kept out of the digital world because they were unable to type in English. We realised language was natural to them, as it doesn't need education. It was not a fascination but a necessity in India". Riding on the success of

Krishnananda, CPTO at Myntra, said: "We introduced our voice search feature on the Myntra app a few years ago and we have seen a 5X increase in adoption of the feature. We have witnessed significant adoption being driven both from metro and non-metro consumers, with a sizable portion coming from new cus-

tomers on the platform."

voice-based search, Raghu

# AI revamps relief structure for pilots, cabin crew

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 17

**AIR INDIA ON** Monday said it has revamped the compensation structure for pilots and cabin crew, including increasing the per-hour flying rate for pilots.

Under the new structure, part of the Tata Group-owned airline's five-year transformation plan, salaries will be hiked for more than 2,700 pilots across Air India and AIX Connect (including Air Asia India and Air India Express) as well as for more than 5,600 of Air India's cabin crew, said a source.

"We are pleased to announce a revision in the compensation of flying staff with effect from April 1, 2023. We have redesigned the compensation of flying staff to make our compensation structure simplified," according to an internal circular.

Following the revision, the guaranteed flying allowance component has been doubled from the current 20 hours to 40 hours. However, it remained much lower compared to the pre-pandemic period when Air India pilots were entitled to a guaranteed 70 hours of flying.

One year CTC of a trainee pilot now stands at Rs 50,000 per month while a senior commander will earn Rs 8.50 lakh per month.



Similarly, the salary of a fresh cabin crew has been pegged at ₹25,000 per month, whereas the cabin executive will ge₹78,000 per month, according to the circular.

There will also be additional compensation for pilots undergoing training for command upgrade and conversion training for the time spent inground and simulator training, the source said.

Further, Air India has also hiked the pilots' per-hour flying and flying allowance rates. The source said the airline

will introduce an additional reward to recognise the long service of its tenured staff, and double the stipend for trainee

Among others, the contracts of nearly 800 FTC (Fixed Term Contract) pilots, which were earlier renewed for 5 years, will now be extended until the pilots attain the age of 58 years.

Air India has about 4,700

FTC cabin crew and nearly 1,000 permanent cabin crew.

Air India will also introduce two additional levels/designations -- Junior First Officer and Senior Commander.

A large number of senior pilots, who have flown for four or more years as Commanders, will be promoted to the Senior Commander rank, giving them instant inclusion into the management cadre with extra allowance for executive duties, the source said.

The cabin crew organisation structure for both permanent and FTC cabin crew has been redesignated into four segments -- Trainee Cabin Crew, Cabin Crew, Cabin Senior and Cabin Executive.

As per the source, the trainee stipends for fresher and experienced cabin crew will be hiked by more than 20 per cent.

The airline will also double the domestic layover allowance and the allowance for check crew.

Besides, it has also introduced additional allowances for cabin supervisors and

their grooming. In February, Air India announced plans to hire more than 4,200 cabin crew trainees and 900 pilots this year. The airline has also

placed orders for 470 planes

FROM THE FRONT PAGE

with Boeing and Airbus.

**SENSEX** 

Intra-day, April 17

60,700 Previous close:

them know about it," Rai said. Rai said that Indian carriers will require about 2,000 narrow body aircraft over the next decade.

He said that GE has invested about \$200 million in its Pune based multimodal facility and is also sourcing components from this facility.

Vikram Rai said that the company has developed about 13 suppliers within India for its global supply chain.

### Mitsubishi to build AC factory at Mahindra industrial park SAJAN C KUMAR

Chennai, April 17

MITSUBISHI ELECTRIC WILL set up a plant at a cost of \$222 million over 52 acres to manufacture air-conditioners and compressors at Origins by Mahindra, an industrial park in Chennai. Mahindra Industrial Park, Chennai (MIPCL), is a joint venture of Mahindra World City Developers and Sumitomo Corporation of Japan.

The new factory will be Mitsubishi Electric's first air conditioners and compressors manufacturing facility in India. This factory will cater to the growing air-conditioner demand in the domestic market and is expected to begin operations by October 2025.

Once fully operational, the factory will enable Mitsubishi Electric to achieve an annual production capability 300,000 units of room air-conditioners and 650,000 units of compressors. The plant will be equipped with the latest technologies adhering to the highest standards of quality and safety.

HOUSING FINANCE

# 'Warehousing demand from e-comm to pick up in time'

**RAGHAVENDRA KAMATH** Mumbai, April 17

WAREHOUSING CAPACITIES **CREATED** by e-commerce firms will take another two years to get absorbed and the demand to actually pick up from the segment, said a senior executive at Blackstone's logistics company, Horizon Industrial Parks. "The share of e-commerce in

Indian warehousing has come down to low single digits from double digits in FY19," Rahul Pandit, chief executive at Horizon Industrial Parks, said. E-commerce demand is sit-

ting at the bottom of the pile. Also, third-party logistics (3PL), direct-to-consumer, and retail and industrial, have grown their shares, he said. Warehousing demand by e-

commerce companies has come

down as the firms used ware-

housing in big numbers during the pandemic, experts said. "We're seeing strong consumption growth in India in areas like retail, fashion and footwear, which is driving demand for warehouses," Pandit

said. Since inception, Horizon has added a portfolio of 3.7 million sqft to its existing portfolio and



**Horizon Industrial Parks CEO Rahul Pandit** 

is building another 5 million sq ftwith a capital outlay of ₹4,500 crore. "Total warehousing stock will increase significantly over the next two years, and we expect Horizon's portfolio to grow faster than the market,"he said, adding that they will double the operating portfolio in the next two years.

Last year, Horizon acquired two development portfolios, including two operating assets in the country. "Ideally, we want to acquire operating and brownfield properties, but there is a dearth of good quality assets, we have therefore taken on the mantle of being developers in this asset class," he said.

Pandit said the company is quite excited about electric vehicles, passenger vehicles and cold storage, and increased demand for BTS (built-to-suit) properties. Construction costs have gone up, given the market volatility. With rising interest rates and input costs, the sector's yields have been constrained by 150-250 basis points. "We experience a supply chain pricing lag as our customers build efficiency and share costs with their consumers," he said.

"Demand for the last mile and in-city warehousing will explode due to rapid urbanisation and goods moving online. Time and proximity to customers have become essential."

Blackstone has a global warehousing portfolio of 1.2 billion sq ft, which is 37% of its total real estate portfolio. India has a stock of 370 million sqft against 13 billion sqft in the US.

Horizon's operating portfolio is at 100% occupancy, with upcoming supply substantially pre-leased and a robust demand pipeline. It is creating a 400,000 sqft urban fulfilment centre for a global e-commerce major in Delhi, to be the first facility of its kind in India It is also constructing a BTS unit for a specialty chemicals firm in Hyderabad, cold storage and EV facilities in Tamil Nadu, an automotive components factory in Pune.

# PwC India to invest ₹600 cr in 3 years on staff welfare

**PWC INDIA ON Monday said** it is investing more than ₹600 crore over the next 3 years towards holistic learning and development of its employees and across different wellbeing initiatives.

The past three years have had a dramatic effect on people, and as a result, individuals are nowreassessingwhattheywant to do and how they want to work, the consultancy firm said in a release.

"PwC India is committed to investing over ₹600 crore towards the holistic growth, development and wellbeing of its people through its new People Experience Framework, where our people can experience infinite opportunities," it said.

The framework, PwC India added, enables employees to gain access to personalised opportunities that allow them to live their lives how they want to, including meeting the needs of their families, finding work that aligns with their purpose and values, thereby creating an environment in which they are building the skills needed for the future.

# Infy's free fall pulls Sensex

# below 60,000 Sectorally, the NSE IT index

led the fall, closing down 4.71% at 27,008.50. It slumped to an intra-day low of 26,184.45 — down 7.62% from its previous close. Besides Infosys, Mindtree and Tech Mahindra were other big losers, shedding 7% and 5% respectively. TCS fell the least, down 1.56% to close at ₹3,139.

On the BSE, the BSE Info Tech index was down 4.77%, while the BSE Teck shed 4.56%.

"A slowdown across the globe has been an overhang, while high attrition rates continue to ail the sector. Despite the rupee having depreciated, strength is lacking in the dollar index vis-a-vis other currencies, which has led to a cross-currency impact," said Chandan Taparia, head (Technical & Derivatives Research) at Motilal Oswal.

He pointed out that Infosys' Q4 results have put pressure on the whole sector, and underperformance in the IT counter could continue.

A report by BNP Paribas India said Infosys' Q4 revenue missed estimates on account

#### 60,431 60,400 60,385.90 60,100 59,910.75 59,800

of unplanned client rampdowns across sectors, which led to low volumes. Revenue took a one-time hit from project cancellations and clientspecific issues, it added.

Considering the heightened uncertainty at the company, the bank believes TCS is better positioned to benefit from the shift in customers' focus to cost-optimisation deals. Interestingly, the Nasdaq had gained 1.99% on Thursday, but had lost up to 1.15% intra-day on Friday, before recovering to end 0.35%

there was a strong co-relation between the Indian IT sector and its US counterpart, there has been a disconnect since the beginning of the year.

Prasad added that while

"Which direction the US tech stocks take depends a lot

on their larger macro-economic factors and local aspects. For Indian IT firms, developments like SVB and UBS' acquisition of Credit Suisse weighs on sentiment, given that the overseas BFSI sector comprises a bulk of their clientele," he added.

### Invesco exits Zee, sells 5.11% stake for ₹1,004 cr

Despite the win, Invesco had opted to step aside and cut its stake in Zee, also supporting the media company in its proposed merger with Sony. In April last year, the fund offloaded 7.8% stake for ₹2,092 crore in bulk deals, bringing it down to around 11%. By October 2022, Invesco had offloaded another 5.51% stake for ₹1,396 crore

And now the fund is completely out of the company, which analysts say will favour Zee as it looks to complete its proposed merger with Sony over the next few months.

in Zee, also in bulk deals.

In the last one month, Zee has settled its financial disputes with IndusInd Bank and the Indian Performing Rights Society, with Goenka paying ₹50 lakh to the Securities and Exchange Board of India (Sebi) last week to settle an insider trading case.

#### **WPI** inflation eases to 29month low of 1.34% in March

"Prices of core items (nonfood and non-energy) declined after a gap of 31 months in March 2023 and it stood at negative 0.3%. The core inflation is expected to be around negative 1.5% in April 2023, Sinha added.

However, inflation witnessed an uptick on some items including pulses at a 14month high of 3% in March while prices of fruits & vegetables were up 1.1% on-year after being on a decline in the past four months.

The electricity inflation jumped to a five-month high of 22.7% in March from 19.7% in the previous month.

"While a high base and the downtrend in wholesale prices of most essential commodities in early-April 2023 are likely to soften the y-o-y food inflation slightly, the possibility of a heatwave in the ongoing month could impart upward pressures on prices of perishables," Icra stated.

by the Consumer Price Index (CPI), fell to a 15-month low in March and below the 6% upper tolerance limit of the RBI after remaining above it for two months, as prices of most items, particularly in the food basket, moderated and a base effect came into play.

Retail inflation, measured

### **VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED** Registered Office: 203/204,"A" Wing, 2nd Floor, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road,

Sewri (West), Mumbai 400 015.

CIN: U65922MH2005PLC272501 Tel:022 2419 0911 Website: www.vastuhfc.com EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 Standalone Consolida							
			Consolidated				
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	22,458.01	16,466.18	68,774.61	47,993.17	76,852.81	52,006.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,752.42	9,918.46	35,146.86	22,710.75	36,015.52	23,235.20
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,752.42	9,918.46	35,146.86	22,710.75	36,015.52	23,235.20
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9,153.06	7,921.74	27,404.11	17,628.14	28,509.22	18,172.83
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,130.54	7,953.10	27,387.47	17,631.01	28,490.15	18,171.22
6	Paid-up Equity Share Capital	63,406.23	63,194.06	63,406.23	63,194.06	63,406.23	63,194.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	73,902.73	45,478.67	73,902.73	45,478.67	74,875.24	45,349.69
8	Securities Premium Account	1,02,508.14	1,01,967.84	1,02,508.14	1,01,967.84	1,02,508.14	1,03,987.11
9	Net Worth	2,39,817.10	2,10,640.57	2,39,817.10	2,10,640.57	2,40,789.62	2,12,530.86
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	2,76,941.50	1,32,309.99	2,76,941.50	1,32,309.99	3,47,608.18	1,55,347.00
11	Outstanding redeemable preference shares	9.70	7.		8 07		95
12	Debt Equity Ratio	1.15	0.63	1.15	0.63	1.44	0.73
13	Earnings Per Share (of ₹.100/- each) (for continuing and discontinued operations)		· ·				
į,	Basic EPS (in ₹.)	14.48	13.26	43.36	30.88	45.11	31.84
	Diluted EPS (in ₹.)	13.38	12.87	41.57	29.98	43.24	30.91
14	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA.
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NA	NA.

a) The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter and year ended financial results are available on the websites of BSE Limited and the Company at www.bseindia.com and www.vastuhfc.com respectively.

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed at www.bseindia.com

 Figures of the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification / disclosure. For Vastu Housing Finance Corporation Limited

> Sandeep Menon Managing Director (DIN 02032154)

# DABUR INDIA LIMITED IN - L24230DL1975PLC007908

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com **NOTICE** 

SL. NO	FOLIO NO.	NAME	CERTIFICATE NOs.	SHARES	DISTINCTIVE N
1	DIL0010464	KRISHAN NATARAJAN	69142 86149 107759	1000 500 1500	30965001-30966 604100603-60410 906420216-90642
2	DIL0028355	RAKESH KUMAR SRIVASTAVA	71159 81226 107646	1000 1000 3000	33024001-33025 600975201-60097 906121306-90612
3	DIL0051466	VINESH KUMAR MAHESHWARI	105642	3000	902335947-90233
4	DIL0066604	NILAM THAKKAR	93649 106761	500 500	899080910-89908 904424064-90442
5	DIL0043620	ASHOK KUMAR GUPTA	32731*	100*	25581951-255820
6	DIL0033972	KAVITA JHURANI	2623*	10*	13617449-136174
7	DIL0014335	PRAVINCHANDRA BABUBHAI KISHANADWALA	80484	1000	600257059-60025
/	DIL0014333	YOGESH BABUBHAI KISHANDWALA	107723	1000	906335666-90633
8	DIL0001322	DINESH SANGHVI SEJAL SANGHVI	105808	3000	902681847-90268
9	DIL0009040	VYOM SHAH	13040*	100*	23612851-236129
10	DIL0066589	BALKRISHNA N BAHETI	93634 106737	40 40	899074805-89907 904398434-90439
11	DIL0021424	VIJAYALAKSHMIT	25424*	100*	24851251-248513
12	DIL0047915	HAMOOD AHMED SIDDIQUI	57674* 88109	100* 1000	28076251-280763 605984808-60598
13 DIL0900736 IVY JANETTE CARNELIO JOHN D SOUZA (Deceased )  14 DIL0045319 PRADEEP N PANCHOLI		73708 107755	1000 3000	35920291-35921 906406716-90640	
		35721* 81989	100* 1000	25880951-258810 601709549-60171	
15	DIL0904026	ABHAY MADAN URANKAR	60775*	100*	28386351-283864
16	DIL0903987	SWATI ABHAV URANKAR	60736*	100*	28382451-283825
17	DIL0046862	N KRISHNAN	72870	2000	35107591-35109

\*shares of FV Rs. 10 each

Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 30.04.2023,indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the issue of said letter of confirmation, through an affidavit · In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any

claim/damages whatsoever it may be. The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 30.04.2023 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

For DABUR INDIA LIMITED New Delhi (AKJAIN)

17.04.2023

New Delhi

E.V.P.(Finance) & Company Secretary

financiale

Place: Mumbai Date: 17th April, 2023

#### Criminal Courts, Luumana Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Ltd Aslam Maseta CNR NO: PBLD03-032571-2019

Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Aslam Maseta Address- S/o Maseta R/o Ward No 20 Nai Basti Fatehull Thakurdwara Moradabad 255601 Uttar Pradesh

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

#### Grimmai Courts, Lucinianai next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case in formation is available on

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Chandar Shekhar Azad

CNR NO: PBLD03-032565-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Chandra

Shekhar Azad Address- R/o H. No G-93 Vijay Nagar Sector-9 Ghaziabad Uttar Pardesh 201009 Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_ notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana Criminai Courts, Lugniana

next date, purpose of case, orders and judgmen as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Manoi Kumar Karana CNR NO: PBLD03-032552-2019 Date: 19-05-2023

Kotak Mahindra Bank Ltd

Publication Issued To: Manoj Kumar Karana Address- R/o G-541 F Ground Floor Kh No 150 Aya Nagar Extn Phase-6 Dehli New Dehli 110047

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

# Criminal Courts, Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Meena Begum CNR NO: PBLD03-014174-2019 Date: 19-05-2023

Publication Issued To: Meena Begum Address- Hno 68 Sanjay Camp BLK A Dakshin lPuri Extn Delhi

Whereas it has proved to the satisfaction accused/accused persons can't be served proclamation under 82 of code of criminal with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

### जनसत्ता **क्लासीफा**इड

Rzu- 28a, Nanda Block, Mahavir Enclave, New Delhi-110045 has disowned and disinherited her elder son Vikas and his wife Akansha and Younger Son Ravi and his Wife Raini from her all moveable and immoveable properties and assets. Both of and regularly threatening her to implicate in false criminal cases, my client is having no concern with them in any manner will do so at his/her own risk, cost and consequences and my client and their other family member shall not be held

liable for their any of act or deeds Akshansh Sharma, Advocate

PUBLIC NOTICE Seneral Public is hereby informed tha my clients Smt. Sunita Anand and Sh Ravinder Mohan Anand both R/o Fla No. 171, Plot No. 6A, Vishwas Apartments, Police Station Sector-23, Bagdola, Raj Nagar-II, South Wes Delhi, Delhi-110077, have severed al their relations with their son Sh. Anu Anand and his wife Smt. Suruch Anand due to their disobedience and ill treatment. Both of my above named clients, have also disowned and debarred their son and his wife, from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with Sh Anuj Anand along with his wife will do so at his/her/their own risk and responsibilities and my clients will no be responsible for any act, deed o dealing done by Sh. Anuj Anand and

> Sudhanshu Madan (Advocate) 111, Sector-12A, Dwarka New Delhi-78

PUBLIC NOTICE is hereby informed to the genera public that I Megha Chopra W/O Bhanu Chopra no M-140 GK-2, New Delhi, we have lost the Original Provisiona Allotment Letter No.JGNPKP10J033 dated 25/04/2011. Issued by M/s Jaiprakash Associates Ltd. in respec of unit bearing No.PKP001J033 in Kensington Park Plots project, situated at Jaypee Greens Noida/ Greater Noida/ Sports City on dated 15/03/2023. Any one finding the above documents is requested to kindly return the same to me or the Company.

Name: Megha Chopra Address: M-140 GK-2 New Delhi Phone No. 08287273757 Email id: roop.singh@rategain.com

www.readwhere.com

#### Cililinai Courts, Luumana next date, purpose of case, orders and judgment

as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Suman CNR NO: PBLD03-032562-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Suman

Address- R/o H No 7442 First Floor Gali Teh Mill Ram Nagar Pahar Gani Swami Ram Tirth Nagar Central New Dehli 110055 Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon

#### to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana Criminal Courts, Luciniana

next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Mohd Azeem @ Mohd Ajim CNR NO: PBLD03-032550-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Mohd Azeem @ Mohd Ajim Address- S/o

Kayyom Ahamad R/o H. No 104

Lalvara Tehsil Shahabad Rampur 244922 Uttar Pradesh Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

#### Criminai Courts, Lugniana

next date, purpose of case, orders and judgment as well as other case in formation is available or http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Uday Veer Singh

CNR NO: PBLD03-014175-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Uday Veer Singh Address- Nagla Pohkara Nagla Kasi Aring Chhata Mathura 281501

UP 02. hotilal prasad r/o 411

palikheda mathura highway mathura 281004 UP Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of crimina procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-202 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_ notice&district=ludhiana

#### प्रपत्र सं. यूआरसी-2 अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग-1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सचना देने

के लिये विज्ञापन [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम

4(1) के अनुपालन में] एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ''आईएमएएपीपीडब्ल्युईबी एलएलपी एक एलएलपी' को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम. 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत

पंजीकृत की जाये। 2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं बेवहोस्टिंग कार्यों, अन्य सूचना तकनीक तथा कम्प्यूटर सेवा कार्यों, एनईसी टूर ऑपरेटर कार्यों का व्यवसाय करना।

प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति सम्पत्ति सं. 12, लेफ्ट साइड, 2रा एवं 3रा तल, हौसखास गांव, हौज खास नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 110006 में कार्यालय में देखी जा सकती है। एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी

व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास जमा करें। आवेदकों का नाम

आज, दिनांक, 13 अप्रैल, 2023 को।

#### प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

#### चहा इंफ्राटेक लिमिटेड (CIN: U72300DL2007PLC170194) जेसका पंजीकृत कार्यालयः साइड मुसतील नं. 52 किला न.-6, गांव जौनपुर, नई दिल्ली-110047 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी ज्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में ख्यानांतरित करने के लिए 10 **मार्च 2023** को ग्रायोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तादित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

साइड मुसतील नं. 52 किला न.—6, गांव जौनपुर, नई दिल्ली-110047 सौरभ शंकर सिंह आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

> चहा इंफ्राटेक लिमिटेड गुरजीत सिंह चहा (निदेशक)

दिनांक: 17.04.2023 डीआईएन: 01381438 स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र क्र. आयएनसी–26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) एवं कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में।

टुडेज हेल्थकेअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (CIN: U85100DL2009PTC386284) कार्यालय, दूसरी मंझिल, न्यू ब्लॉक, आर. के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लेक्स, 1 अफ्रिका ॲव्हेन्यू, नई दिल्ली — 110029 के मामले में।

...... आवेदक कंपनी आम जनता को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि, दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को आयोजित असाधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी उनके अधिसंघ संस्थापन प्रलेख में परिवर्तन करने हेत् मान्यता प्राप्त करने के लिए कंपनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 अंतर्गत आवेदन देना प्रस्तुत कर रही है ताकि कंपनी को उनका पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली'' से कंपनी निबंधक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में ''गुजरात राज्य'' में स्थलांतरित करना संभव हो सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत परिवर्तन की वजह से किसी भी व्यक्ती के हितसंबंध बाधित होने की संभावना हो, तो वे उनकी आपत्ति MCA-21 portal (www.mca.gov.in) पर इनव्हेस्टर कम्प्लेन्ट भेजें या भेजने की व्यवस्था करें या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें और उसके समर्थन में उनके हितसंबंध एवं विरोध का आधार देते हुए हलफनामा, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, दुसरी मंझिल पं. दिनदयाल अन्त्योदय भवन, दुसरी मंझिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 यहाँ पर इस सचना के प्रकाशन के दिनांक से चौदह दिन के भीतर भेजें | और उसकी प्रतिलिपी आवेदक कंपनी को उनके पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंझिल, न्यु ब्लॉक, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लेक्स, 1 अफ्रिका ॲव्हेन्य. नई दिल्ली – 110029 यहाँ पर भेजें।

दुडेज हेल्थकेअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

नामः अमरिन्दर पाल सिंह पदनामः निदेशक DIN: 03426338 हस्ताक्षर /-नाम: विमल अरोरा पदनाम: निदेशक DIN: 07386547

#### सार्वजनिक सूचना

क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में ऑरैकल क्रेडिट लिमिटेड)

CIN: L65910DL1991PLCO43281 पंजी० कार्यालयः फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, बी-विंग, स्टेट्समेन हाउस 148 बाराखम्बा रोड, कनॉट

प्लेस, नई दिल्ली-110001 कार्पो. कार्या. : छठा तल-609, सी/66, जी ब्लॉक, बीएंड सी विंग वन बीकेसी, बैंक ऑफ बड़ौदा

के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051, एमएच आईएन,

ईमेलः compliance@credentglobal.com, वेबसाईटः www.credentglobal.com

पत्रांक एस 1115/सी.एम.एस V1/05.15.018/2022-23 तिथि 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से कम्पनी के नाम परिवर्तन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) से प्राप्त स्वीकृति पत्र के अनुपालन में सार्वजनिक सुचना/एतद्वार सुचित किया जाता है कि मै. क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में औरेकल क्रेडिट लिमिटेड), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी तथा जो प्रमाणपत्र संख्या 14.00242 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है जिसका पंजी॰ कार्यालयः फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, बी-विंग, स्टेटसमेन हाउस 148 बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, वे कम्पनी का नाम मै, ऑरेकल क्रेडिट लिमिटेड से परिवर्तित कर मै. क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड कर दिया गया है जो कम्पनी रजिस्ट्रार आरओसी दिल्ली द्वारा जारी पंजीकरण के नवीन प्रमाणपत्र तिथि 06 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में है। यह आपकी जानकारी तथा अभिलेखों के लिये है।

> कृते एवं के लिये क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में ऑरेकल क्रेडिट लिमिटेड विदित आदित्य विक्रम कनोरिय

> > (प्रबंध निदेशक

DIN:07002410

स्थानः मुम्बई तिथि : 17.4.2023

#### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नावेद अख्तर पता 2675, सतघरा, मोहल्ला नियारियन, जी.बी. रोड दिल्ली-110006 ने सीसी सं. 3392/2019 घारा 138 एनआई एक्ट के तहत थानाः लाहौरी गेट, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **नावेद अख्तर** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त नावेद अख्तर फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि सीसी सं. 3392/2019 घारा 138 एनआई एक्ट के तहत थानाः लाहौरी गेट, दिल्ली के उक्त नावेद अख्तर से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.05.2023 को या इससे पहले हाजिर हो आदेशानुसार

> भुजाली महानगर दण्डाधिकारी (एनआई एक्ट)-01 (सेन्ट्रल) कमरा नं. 201 द्वितीय तल, न्यायालय उपभवन-II तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/3500/N/2023



#### निविदा सूचना क्र.P1PD-17/2023 दिनांक 18.04.2023

कार्य का नाम; पुणे मेट्रो रेल्वे परियोजना स्वारगेट मेट्रो स्थानक के पास पर्वती टीपी स्कीम का अंतिम प्लाट संख्य ४९९ का सार्वजनिक और निजी साझेदारी (डीबीएफओटी) तत्व के आधार पर विकास और ऑपरेशन्स.

**अनुज्ञप्ति का**। प्रवर्तन की तिथि से २४ वर्ष जिस में २ साल के कंस्ट्रक्शन अवधि का समावेश हैं. इस अवधि में ३० वर्ष तव बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन वह पीएमसी के धर्तों के अधीन और लीज में बढ़ोतरी के लिए अंशतः भूगता

स. ५९,000/- जीएसटी के साथ, नॉन रिफंडेबल जो इ-पेमेंट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड / डेबिट का / नेट बैंकिंग के माध्यम से जो इ-निविदा पोर्टल में उझेखित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करना आवश्य की कीमत ४. ८२,00,000 /- (रूपये बयासि लाख मात्र) जिस का भगतान निम्नलिखित के अनुसार करने

क. १६,४०,००० / - ऑनलाईन पेमेंट मोड के माध्यम से जो महा मेट्रो के इ निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है इच्छुक बोलीदाता पूने मेट्रो रेल का संकेतस्थल <u>www.punemetroraii.org</u> देख सकते है तथा बोली प्रपत्र डाउनलोर कर सकते है तथा निविदा के बारे में अधिक जानकारी ई–निविदा पोर्टल https://mahametrorali.etenders.in

२४/०४/२०२३ को शाम १६.०० बजे से २४/०५/२०२३ को शाम १६.०० बजे तक महामेट्रो ई-निविदा पोर्टल से प्राप्त (खरेदी एवं करार), पीएमआरपी

महा मेट्रो, हरित मेट्रो

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

# 🐠 🔤 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट 🛚 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ( ए शेड्युल्ड कमर्शियल बैंक ) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभृतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 11 मई 2022 को संदर्भ संख्या SME/SAR/13-2/MAY-22/06 ऋण खाता संख्या: 1921244224547820 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार मैसर्स ओम साई गारमेंद्रस जरिए प्रोपराइटर श्री दीना नाथ (ऋणी), श्री दीना नाथ पुत्र श्री पत राम (जमानतदार/ सह-ऋणी), श्रीमती शशी पत्नी श्री दीना नाथ ( जमानतदार/ बंधककर्ता ) को नोटिस में वर्णित के लिए रूपये 7,24,859.89/- ( सात लाख चौबीस हजार आठ सौ उनसठ व नवासी पैसा मात्र ) दिनांक 10 मई 2022 तक कुल देव ( जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क ) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 15 अप्रैल 2023 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/सह ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार में के लिए रूपये 7,54,347 ( सात लाख चौवन हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र ) दिनांक 13 अप्रैल 2023 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भूगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एय स्मॉल फाड़नेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित तीसरी मंजिल छत अधिकार सहित क्षेत्रफल 50,00 वर्ग गज **( कथित सम्पत्ति )** सम्पत्ति बियरिंग नं. डी-49 का हिस्सा, खसरा नं. 898/192 के वाहर, 216 से 218, 243, स्थित गांव चन्दावली उर्फ शाहदरा, आबादी गली नं. 12 की, जगतपुरी, इलाका शाहदरा दिल्ली - 110093, जो कि श्रीमती शशी पत्नी श्री दीना नाथ के स्वामित्व में है।

उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, पर्व : 15 फीट चौडी रोड. दिनांकः 15.04.2023 स्थान : इलाका शाहदरा, दिल्ली

दिनांक: 18.04.2023

स्थान : नई दिल्ली

दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति पश्चिम : सम्पत्ति नं. डी-50 प्राधिकत अधिकारी एयू रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

मेसर्स यमुना इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (सीआईएन: U70200DL2012PTC233903) की तत्काल वसूली के लिये अयोग्य संपत्तियों के हस्तांतरण/ असाइनमेंट के लिये आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 20<u>16 के</u> विनियम 37ए अंतर्गत सूचना हेतु परिशिष्ट

(इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 अंतर्गत असाइनमेंट/हस्तांतरण) इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत जारी किए गए नोटिस दिनांक 13.04.2023 के संदर्भ में और इनसॉल्वेंसी

एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 36 ए अंतर्गत यमुना इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की आसानी से तत्काल वसूली के अयोग्य संपत्तियों के असाइनमेंट/हस्तांतरण हेतु उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के संदर्भ में, आवेदनों में शामिल/दावा की गई राशि को निम्नानुसार पुनर्कथित किया गया है, पूर्व में बताई गई राशि को अनदेखा करें : तत्काल वसूली के लिये अयोग्य संपत्तियों की सूची

लॉट क्र.	विवरण	आवेदनों में शामिल/दावा की गई राधि
	निम्नलिखित परिहार आवेदनों के संबंध में कानूनी संपत्तियों पर अधिकारों और हितों का असाइनमे	
1.	आईए/5653/2021: कॉपॉरेट देनदार के प्रमोटर /निदेशकों द्वारा किये गये कुछ अधिमान्य संव्यवहार से बचाव की मांग हेतु कोड की धारा 43 और 44 अंतर्गत परिसमापक द्वारा दायर आवेदन.	
2.	आईए/228/2022 : कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटर्स /निदेशकों द्वारा किये गये कुछ धोखाधडी पूर्ण संव्यवहार से बचाव की मांग हेतु कोड की धारा 66 और 67 अंतर्गत परिसमापक द्वारा दायर आवेदन.	
3.	समेकित लॉट (अर्थात लॉट 1 और लॉट 2 एकत्रित तौर पर) (दोनों आईए और आईए)	लगभग रुपये 27.28 करोड़

जायेगी, यदि उक्त प्रस्ताव, एकत्रित तौर पर सभी व्यक्तिगत लॉट्स से बेहतर पाया जायेगा. इस संबंध में विवरण प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज में उपलब्ध है. इच्छुक पार्टियां प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज पाने के लिये परिसमापक से संपर्क कर सकती हैं. इच्छुक पार्टियां अपने प्रस्ताव, अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम **सोमवार, 1 मई 2023** तक जमा कर सकती हैं. असाइनमेंट/ हस्तांतरण, आईबीसी 2016 के प्रावधानों के साथ पठित तथा उनके अंतर्गत निर्मित विनियमों और प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज के अधीन होगा. असाइनमेंट/हस्तांतरण का फाइनलाइजेशन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मान्यता के

वे सभी आवेदक जिन्होंने विनियम 37ए दिनांक 13 अप्रैल 2023 अंतर्गत सूचना के अनुपालन में अपने प्रस्ताव पहले ही जमा कर दिये हैं, उन्हें केवल ईमेल और हार्डकापी द्वारा एक पुष्टि भेजने की आवश्यकता है कि उन्होंने इस परिशिष्ट में उल्लिखित पुनर्कथित राशि और नियमों और शर्तों पर विचार किया है, जो उन्हें स्वीकार्य है. उन्हें यह

भी नये सिरे से इंगित करना होगा कि वे अब किस लॉट के लिये आवेदन कर रहे हैं. रीता गुप्ता, परिसमापक आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00149/2017-18/10313

> **परिसमापक का पता :** 45-46, बेसमेंट, सत्य निकेतन, मोती बाग - II, नई दिल्ली – 110021

पंजीकृत कार्यालय : खसरा क्र. 432, सिरसपुर गुरुद्वारा मार्केट,

बादली दिल्ली उत्तर पश्चिम डीआई 110042

स्थान : गुरुग्राम संपर्क क्र. : 9811652355, तिथि : 17 अप्रैल, 2023 ईमेल : liq.yipl@gmail.com, ritaca\_1996@yahoo.co.in

#### FORM NO. 1 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW** (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007, PH. 0522-4091208

DRC No. 611/2020/R.O.I NOTICE UNDER RULE (2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 196 READ WITH SECTION 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1993 **CANARA BANK (Erstwhile Syndicate Bank)** .... C.H. Bank (Sector-62, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar)

**VERSUS** MR. HITESH BHASIN & ORS. .... CREDIT DEBTOR. **NOTICE FOR DEMAND TO CERTIFICATE DEBTORS** 

MR. HITESH BHASIN S/O SHRI CHAMAN LAL BHASIN

R/O R-42, E, R-Block, Dilshad Garden, Delhi-110095 2nd Address: Flat No. A-203 2nd Floor, Tower-Aqua in the project known as "GAYATRI LIFE" at Plot No. GH-1 F Sector-16, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar. MRS. MEENU BHASIN W/O SHRI HITESH BHASIN R/O R-42, E, R-Block, Dilshad Garden, Delhi-110095 2nd Address: Flat No. A-203

2nd Floor, Tower-Aqua in the project known as "GAYATRI LIFE" at Plot No. GH-1 F Sector-16, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar M/S GAYATRI INFRA PLANNER PVT. LTD. Through it's Directors "GYATRI LIFE"

Site Office: 1F, Sector-16, Greater Noida (West) Distt. Gautam Budh Nagar 2nd Address: Corporate Office: B-121, First Floor, SECTOR-2, NOIDA-201301 (U.P. .....Certificate Debtors

This is to notify that a sum of Rs. 64,03,633.42 (Rupees Sixty Four Lacs Three Thousand Six Hundred Thirty Three and Forty Two Paisa Only) (Rs. 33,76,600.48/- ir housing loan account-I) And (Rs. 30,27,032.94/- Housing Loan-II) together with pendentlite and future interest @ 09.50% per annum from the date of filing of the Origina Application i.e. 28/11/2018. Till the loan is fully liquidated and cost succeeds and is hereby allowed exparte against you the address as per order dated 28/10/2019 passed by Hon'ble Tribunal in **O.A. no. 1418/2018**. You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of the

receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and Financial institution Act 1993. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of Assets on or before

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 01/06/2023 at 11:00 A.M. In addition to the sum aforesaid you will also be liable to pay:

**Details of Cost:** Application Fee Rs. 67,010/-Advocate Fee Rs. 40.000/-**Publication Charge** Rs. 3,000/-Misc. Expenses Rs. 1,000/-Clerkage

Rs. 4,000/-Given under my hand and seal on this 13th day of April 2023.

**Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

**Recovery Officer-**

LUMAX ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआईएन : L31909DL1981PLC349793 **पंजी. कार्यालय :** द्वितीय तल, हरबंश भवन-॥,

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट की सूचना

कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दरभाष : 011-49857832

ईमेल : shares@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxautotech

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और सभी अन्य लाग् प्रावधानों, यदि कोई हैं, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, यथा संशोधित ("नियम"), के साथ पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ('**'एमसीए''**) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 और 11/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 (सामुहिक तौर पर ''एमसीए परिपन्न''), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीकरण विनियम")— वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधनों अथवा इसके पुनः अधिनियमन सहित, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा सामान्य बैठक के संबंध में जारी सचिवालयीन मानदंड—2 (**''एसएस—2''**) तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस में वर्णित संकल्पों के लिए ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**कंपनी"**) के सदस्यों की सहमति / स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सोमवार, 17 अप्रैल, 2023 को पोस्टल बैलेट, ई—मेल के जरिए केवल उन सदस्यों को प्रेषित करने का कार्य पूरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 ("**कट ऑफ तिथि**") को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई–मेल पते डिपाजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("**'एनएसडीएल"**) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (**''सीडीएसएल''**) तथा / अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अर्थात बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('**'बिगशेयर''**) के पास पंजीकृत हैं। ऊपर वर्णित एमसीए परिपत्रों के अनुरूप पोस्टल बैलेट नोटिस, साथ में पोस्टल

भेजी जाएंगी। सदस्यों की सहमति / असहमति की सूचना केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के जरिए प्राप्त की जाएगी। कोई व्यक्ति, जो कि कट—ऑफ तिथि को कारोबार के घण्टे बंद होने के समय सदस्य नहीं है, उन्हें इस नोटिस को केवल सूचनात्मक उददेश्य के लिए मान लेना चाहिए। कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए

बैलेट फार्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं

एनएसडीएल की सेवाएं प्राप्त की हैं। ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन पोस्टल बैलेट नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है।

श्री मनीष गुप्ता, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सचिव (एफसीएस 4982) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए समीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: . पोस्टल बैलेट सूचना डिस्पैच करने/भेजने की समापन तिथि सोमवार, 17 अप्रैल, 2023 है।

ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 19 अप्रैल, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 18 मई, 2023 को अपराहा 5.00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकेंगे। इसके

पश्चात ई—वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों के मताधिकार की परिगणना शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 (कट—ऑफ तिथि) को व्यापारिक घण्टों की समाप्ति तक उनके द्वारा कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात

के आधार पर की जाएगी। iv. पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा साथ ही एनएसडीएल की

वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड कर दी गई है। यदि ई-मेल पता कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है तो ई–मेल पता पंजीकृत कराने और ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया

a) भौतिक माध्यम से शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए), बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास vinod.y@bigshareonline.com पर लिखकर इसे पंजीकृत करा लें।

 अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने संबंधित. डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत / अपडेट करायें। ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर, ई-वोटिंग यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपके ई-मेल पते पर भेज दी जाएगी। किसी पूछताछ के लिए सदस्य shares@lumaxmail.com पर लिख सकते हैं।

vi. किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर Frequently Asked Questions (FAQs) का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल से 022 - 4886 7000 और 022- 2499 7000 (टोल फ्री) पर कॉल

कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई—मेल अनुरोध भेज सकते हैं। vii. ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से संपर्क

कर सकते हैं:-

सुश्री सरीता मोटे नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड युनिटः ल्युमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजिस लिमिटेड

निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें:

फोनः 022-4886 7000 और 022-2499 7000 | ई-मेलः evoting@nsdl.co.in viii. ई—वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सदस्य

संपर्क कर सकते हैं:-राजेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख

(सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा) ल्युमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजिस लिमिटेड फोनः +0124-4760000 | ई-मेलः shares@lumaxmail.com

ix. पोस्टल बैलेट (ई–वोटिंग के माध्यम से) का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर शनिवार 20 मई, 2023 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) अथवा इससे पहले घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलेट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ये परिणाम साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सचित किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

> बोर्ड के आदेश से ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड राजेश कुमार गुप्ता

उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा) आईसीएसआई सदस्यता संख्याः A8709

# Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com

#### DABUR INDIA LIMITED IN - L24230DL1975PLC007908 Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051

Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced. SL. NO FOLIO NO. NAME CERTIFICATE NOs. SHARES 69142 30965001-30966000 DIL0010464 KRISHAN NATARAJAN 86149 604100603-604101102 107759 1500 906420216-906421715 71159 33024001-33025000 RAKESH KUMAR SRIVASTAVA 81226 1000 600975201-600976200 DIL0028355 906121306-906124305 107646 DIL0051466 VINESH KUMAR MAHESHWARI 105642 3000 902335947-902338946 899080910-899081409 93649 DIL0066604 **NILAM THAKKAR** 106761 500 904424064-904424563 32731\* 100\* DIL0043620 **ASHOK KUMAR GUPTA** 25581951-25582050\* 2623\* DIL0033972 KAVITA JHURANI 13617449-13617458\* PRAVINCHANDRA BABUBHAI 80484 1000 600257059-600258058 KISHANADWALA DIL0014335 YOGESH BABUBHAI 107723 1000 906335666-906336665 KISHANDWALA **DINESH SANGHVI** DIL0001322 105808 3000 902681847-902684846 SEJAL SANGHVI 23612851-23612950\* **VYOM SHAH** 13040\* DIL0009040 899074805-899074844 93634 DIL0066589 BALKRISHNA N BAHETI 106737 904398434-904398473 **VIJAYALAKSHMI T** 25424\* 100\* 24851251-24851350\* 11 DIL0021424

57674\*

88109

73708

107755

35721\*

81989

60775\*

60736\*

72870

15 DIL0904026 16 DIL0903987 17 DIL0046862

DIL0047915

DIL0900736

DIL0045319

12

13

\*shares of FV Rs. 10 each Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 30.04.2023, indicating the nature of the claim lieu or interest of his har chief the description to the latest by 30.04.2023, indicating the nature of the ection to the issue of said

duly attested. 2. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

HAMOOD AHMED SIDDIQUI

IVY JANETTE CARNELIO

PRADEEP N PANCHOLI

ABHAY MADAN URANKAR

**SWATI ABHAV URANKAR** 

N KRISHNAN

JOHN D SOUZA (Deceased)

The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 30.04.2023 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares. New Delhi

17.04.2023

दिनांक: १८.०४.२०२३

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

For DABUR INDIA LIMITED (A K JAIN) E.V.P.(Finance) & Company Secretary

100\*

1000

1000

100\*

1000

100\*

100\*

2000

28076251-28076350\*

605984808-605985807

35920291-35921290

906406716-906409715

25880951-25881050\*

601709549-601710548

28386351-28386450\*

28382451-28382550\*

35107591-35109590

हस्ताक्षर/-

अधिकृत अधिकारी

(मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड)

**HOME** MOTILAL OSWAL LOANS

मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड रिज. कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुद्धा सवानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५, द्रभाष: (०२२) ४७१८९९९९ वेबसाईट : www.motilaloswalhf.com, ई-मेल : hfquery@motilaloswal.com

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति/यों के लिए)

चुंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (औपचारिक रूप से एस्पावर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता हैं) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के अधीन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम २००२ के नियम ८ (१) की पालना और धारा १३ (१२) सहपेठित उल्लेखित नियम ३ के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने अंकित तिथि को सम्मानित ऋणधारकों को मांग पत्र जारी कर प्रत्येक खाते के सामने अंकित राशि के भगतान के लिए नोटिसों की तिथि / नोटिसों को प्राप्त करने की तिथि के ६० दिन के भीतर आमंत्रित किया था।

ऋणधारक राशि का भगतान करने में असफल रहे हैं, अतः ऋणधारकों व जनसामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (४) सहपठित उक्त नियमों के नियम ८ के अन्तर्गत उसे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने अंकित तिथि को नीचे उल्लेखित ऋणधारकों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को चेतावनी दी जाती है कि इस सम्पत्ति/यों के साथ किसी तरह का सौदा न करें और इस सम्पत्ति/यों के साथ कोई भी

सीदा राजि व ऋण अनुबंध के अनुसार ब्याज के लिए मातीलाल आसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणधारक का ध्यान आधीनयम के ख १३ के उप-खंड (८) के प्रावधानों की ओर दिलाते हुए उन्हें उपलब्ध समय में सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।							
अ. क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणधारक/ सह ऋणधारक/जमानतदार का नाम	PATRICIA DESCRIPTION OF PROPERTY AND ADDRESS OF THE PATRICIA O	कब्जा लेने की तारीख	बंधक संपत्ति/यों का विवरण			
2	LXMOFARIDA721-	09-09-2023	84-08-2023	३३३, चोपडा पट्टीराधा, कृष्ण मंदिर, गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली			

豖.	सह ऋणधारक/जमानतदार का नाम	एवं राशि	तारीख	
*	LXMOFARIDA721- 220595371 देवेन्दर कुमार एवं ललिता देवेन्दर	०९-०१-२०२३ के लिए रु. १०४७६३४/-	१५-०४-२०२३	३३३, चोपड़ा पट्टीराधा, कृष्ण मंदिर, गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली १२२००३
?	LXMOFARIDA721- 220603485 सुरज कुमार एवं रीता देवी	०८-१२-२०२२ के लिए क. १८५२२५६/-	85-08-5053	वाका मौजा, गाँची तहसील बल्लभगढ़, अराजी खसरा नंबर ६/२२/२, प्लॉट नंबर २२, फरीदाबाद, हरियाणा १२१००४
स्थळ	: दिल्ली		NI.	रामध्य / _